

7
 (עֲנִיִּים) [עֲנִיִּים] לְחַבֵּל יַעַן זְמוּת הוּא רָעִים כִּלְיוֹ וְכִלְיֹ
 (गरीबों-को) [दीनों-को] नाश-करने-के-लिए सीचता-है दुष्ट-युक्तियाँ वह बुरे-हैं उसके-उपकरण और-कजूस-के
[H6041](#) [H6035](#) [H3289](#) [H2154](#) [H1931](#) [H3627](#) [H3596](#)

בְּאֵמְרֵי-וְשִׁקְרָהּ וּבְרָבֶר וְאִבְיוֹן מִשְׁפָּט :
 वचनों-से- झूठे और-जब-बोलता-है दरिद्र और-जब-बोलता-है न्याय
[H8267](#) [H0561](#) [H1696](#) [H0034](#) [H4941](#)

वह मूर्ख व्यक्ति बुराई को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वह निर्धन लोगों से झूठ के जरिए बरबाद करने के लिये बुरे बुरे रास्ते बताता रहता है। उसकी ये झूठी बातें गरीब लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलने से दूर रखती हैं।

8
 וְנָרִיב נְדִיבוֹת יַעַן וְהוּא עַל-נְדִיבוֹת יָקוּם : פ
 परन्तु-उदार परन्तु-उदार सीचता-है और-वह उदारता -पर उदारता खड़ा-रहेगा
[H5081](#) [H5081](#) [H3289](#) [H1931](#) [H5081](#)

किन्तु एक अच्छा मुखिया अच्छे काम करने की योजना बनाता है और उसकी वे अच्छी बातें ही उसे एक अच्छा नेता बनाती हैं।

9
 נָשִׁים נִשְׁכָּנֹת קָמְנָה שְׂמַעְנָה קוֹלֵי בְנוֹת בְּשָׂחוֹת הָאֵזָנָה אֲמַרְתִּי :
 स्त्रियों निश्चिन्त उठी सुनो मेरी-आवाज़ बेटियों आश्वस्त कान-लगाओ मेरे-वचन-को
[H0802](#) [H7600](#) [H8085](#) [H1323](#) [H0982](#) [H0238](#)

तुममें से कुछ स्त्रियाँ अभी खुश हैं। तुम सुरक्षित अनुभव करती हो। किन्तु तुम्हें खड़े होकर जो वचन मैं बोल रहा उन्हें सुनना चाहिये।

10
 יָמִים עַל-שָׁנָה תִּרְגְּזֶנָּה בְּשָׂחוֹת כִּי-כָלָה אֶסְרָךְ בְּלִי
 दिन -से-अधिक वर्ष तुम-कांपोगी हे-आश्वस्त-स्त्रियों क्योंकि समाप्त-हो-गई दाख-की-तोड़ाई कटनी बिना
[H3117](#) [H8141](#) [H7264](#) [H0982](#) [H3615](#) [H1210](#) [H0625](#) [H1097](#)
 יְבוּא :
 आएगी
[H0935](#)

स्त्रियों तुम अभी सुरक्षित अनुभव करती हो किन्तु एक वर्ष बाद तुम पर विपत्ति आने वाली है। क्यों क्योंकि तुम अगले वर्ष अँगूर इकट्ठे नहीं करोगी—इकट्ठे करने के लिये अँगूर होंगे ही नहीं।

11
 חֲרָדוֹ שְׂאֲנָנוֹת רַגְזָה בְּשָׂחוֹת פְּשָׁטָה וְעָרָה וַתִּגְזֹרָה עַל-חֲלָצִים :
 थरथराओ हे-निश्चिन्त-स्त्रियों काँपो उतारी हे-आश्वस्त-स्त्रियों और-नंगी-हो-जाओ और-बाँधी और-नंगी-हो-जाओ कमर -पर
[H2729](#) [H7600](#) [H7264](#) [H0982](#) [H6584](#) [H6209](#) [H2296](#) [H2504](#)

स्त्रियों, अभी तुम चैन से हो, किन्तु तुम्हें डरना चाहिये! स्त्रियों, अभी तुम सुरक्षित अनुभव करती हो, किन्तु तुम्हें चिन्ता करनी चाहिये! अपने सुन्दर वस्त्रों को उतार फेंको और शोक वस्त्रों को धारण कर लो। उन वस्त्रों को अपनी कमर पर लपेट लो।

12
 עַל-שָׂדֵימִים עַל-שָׂדֵי-עַל-גְּפִן פְּרִיָּה :
 -पर छातियों पीटी -के-लिए -के-लिए मनभावने खेतों- फलदायी दाखलता
[H5594](#) [H2531](#) [H1612](#) [H6509](#)

अपनी शोक से भरी छातियों पर उन शोक वस्त्रों को पहन लो। विलाप करो क्योंकि तुम्हारे खेत उजड़े हुए हैं। तुम्हारे अँगूर के बगीचे जो कभी अँगूर दिया करते थे, अब खाली पड़े हैं।

13
 עַל-אֲדָמָת עַמִּי קוֹץ שְׂמִיר תִּעְלָה כִּי-עַל-כָּל-בְּתֵי מְשׁוֹשׁ קָרָה
 -पर भूमि मेरे-लोगों-की काँटे झाड़ियाँ उमर्गी हाँ सब-पर नगर आनन्द-के घरों
[H0127](#) [H6975](#) [H8068](#) [H5927](#) [H3605](#) [H4885](#) [H7151](#)

עֲלִיָּה :
 उल्लसित
[H5947](#)

मेरे लोगों की धरती के लिये विलाप करो। विलाप करो, क्योंकि वहाँ बस काँटे और खरपतवार ही उगा करेंगे। विलाप करो इस नगर के लिये और उन सब भवनों के लिये जो कभी आनन्द से भरे हुए थे।

14 קִיר אַרְמוֹן נִטְשׁ הַמּוֹן עִיר עֹבַב עֶפְלָה וְבַחֵן הָיָה בְּעָר בְּעָרוֹת
 किर-क्याकि- आरमोन नटश-गया भीड़ नगर-की व्यागा-गया ओपेल और-मीनार हो-गए के-बदले गुफाओं
[H4631](#) [H1157](#) [H1961](#) [H0975](#) [H5203](#) [H0759](#)

עַרְוֹת עוֹלָם מְשׁוֹשׁ פְּרָאִים מְרַעָה עֲדָרִים
 -तक सदा आनन्द जंगली-गर्धो-का चरागाह झुण्डों-की
[H5704](#) [H5769](#) [H4885](#) [H6501](#) [H4829](#) [H5739](#)

लोग इस प्रमुख नगर को छोड़ जायेंगे। यह महल और ये मिनारें वीरान छोड़ दिये जायेंगे। वे जानवरों की माँद जैसे हो जाएँगे। नगर में जंगली गधे विहार करेंगे। वहाँ भेड़े घास चरती फिरेंगी।

15 עַרְוֹת יַעֲרָה עָלֵינוּ רוּחַ מַמְרוֹם וְהָיָה מְדַבֵּר לְכַרְמֶל וְכַרְמֶל
 -तक उडैला-जाए हम-पर आत्मा ऊपर-से और-हो-जाएगा जंगल उपजाऊ-खेत उपजाऊ-खेत [और-उपजाऊ-खेत]
[H5704](#) [H6168](#) [H7307](#) [H4791](#) [H1961](#) [H3759](#) [H3759](#)

(וְכַרְמֶל) לַיעָר יַחֲשָׁב:
 (और-उपजाऊ-खेत) वन-के गिना-जाएगा
[H2803](#) [H3759](#)

तब तक ऐसा ही होता रहेगा, जब तक परमेश्वर ऊपर से हमें अपनी आत्मा नहीं देगा। अब धरती पर कोई अच्छाई नहीं है। यह रेगिस्तान सी बनी हुई है किन्तु आने वाले समय में यह रेगिस्तान उपजाऊ मैदान हो जायेगा।

16 וְשָׁכַן בְּמִדְבָּר מִשְׁפָּט וַיִּצְדָּק בְּכַרְמֶל תֵּשֵׁב:
 और-बसेगा जंगल-में न्याय और-धार्मिकता उपजाऊ-खेत-में निवास-करेगी
[H7931](#) [H4941](#) [H6666](#) [H3759](#) [H3427](#)

यह उपजाऊ मैदान एक हरे भरे वन जैसा बन जायेगा। चाहे जंगल हो चाहे उपजाऊ धरती, हर कहीं न्याय और निष्पक्षता मिलेगी।

17 וְהָיָה מְעֵשָׂה תְּצַדֵּק שְׁלוֹם וְעִבְדָתָהּ הַצְּדִיקָה הַשְּׂקֵט וְבִטָּח עַרְוֹת:
 और-होगा कार्य धार्मिकता-का शान्ति और-सेवा धार्मिकता-की चैन और-भरोसा -तक सदा
[H1961](#) [H4639](#) [H6666](#) [H7965](#) [H5656](#) [H6666](#) [H8252](#) [H0983](#) [H5704](#) [H5769](#)

वह नेकी सदा—सदा के लिये शान्ति और सुरक्षा को लायेगी।

18 וַיֵּשֶׁב עַמִּי בְּנוּהַ שְׁלוֹם וּבְמִשְׁכַּנּוֹת מְבֹטָחִים וּבְמִנוּחֹת וּשְׁאַנְנוֹת:
 और-बसेगा मेरी-प्रजा निवास-में शान्ति-के और-डेरी-में सुरक्षित और-विश्रामस्थानों-में निश्चिन्त
[H3427](#) [H7965](#) [H4908](#) [H4009](#) [H4496](#) [H7600](#)

मेरे लोग शान्ति के इस सुन्दर क्षेत्र में निवास करेंगे। मेरे लोग सुरक्षा के तम्बुओं में रहा करेंगे। वे निश्चितता के साथ शान्तिपूर्ण स्थानों में निवास करेंगे।

19 וּבְרָר וּבְרָרַת הַיַּעַר וּבְשִׁפְלָהּ תִּשְׁפָּל הָעִיר:
 और-ओले गिरने-पर वन-पर और-नीचाई-में नीचा-होगा नगर
[H1258](#) [H3381](#) [H8218](#) [H8213](#)

किन्तु यें बार्ते घटें इससे पहले उस वन को गिरना होगा। उस नगर को पराजित होना होगा।

20 אֲשֶׁרֵיכֶם עָלֵי כָּל-מַיִם מְשַׁלְּחֵי רְגֵל-הַשֹּׁר הַחֲמוּר:
 धन्य-हो-तुम बोनेवालों पर-सब-जलों छोड़नेवालों पैर-बैल-का और-गधे-का
[H0835](#) [H2232](#) [H3605](#) [H4325](#) [H7971](#) [H7272](#) [H7794](#) [H2543](#)

तुममें से कुछ लोग हर जलधारा के निकट बीज बोतेहो। तुम अपने मवेशियों और अपने गर्धों को इधर—उधर चरने के लिए खुला छोड़ देते हो। तुम लोग बहुत प्रसन्न रहोगे।